



बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिये प्रस्तावति सुधार

प्रलिमिंस के लिये:

MDB, G20, विश्व बैंक समूह, **एशियाई विकास बैंक**, अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर-अमेरिकी विकास बैंक, उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ (EMDE), **सतत विकास लक्ष्य (SDG)**, एशियाई बुनियादी ढाँचा निवेश बैंक

मेन्स के लिये:

बहुपक्षीय विकास बैंक, भारत को समर्थन देने में MDB का योगदान, महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में **G20** विशेषज्ञ पैनल ने सफ़ारिश की है कि बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) को अपने दृष्टिकोण को व्यक्तिगत परियोजनाओं के वित्तपोषण के बजाय राष्ट्रीय सरकारों द्वारा उल्लिखित क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों और दीर्घकालिक परिवर्तनकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

बहुपक्षीय विकास बैंक:

- MDB अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं जिनमें विकासति और विकासशील देश शामिल हैं।
- वे परिवहन, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढाँचे और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिये वित्तपोषण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
- विकासति देश MDB को ऋण देने में योगदान करते हैं, जबकि विकासशील देश आमतौर पर विकास परियोजनाओं के लिये उनसे उधार लेते हैं।
- MDB गरीबी में कमी, बुनियादी ढाँचे के विकास, मानव पूंजी निर्माण आदि जैसे मुद्दों को हल करके निम्न-आय और मध्यम-आय वाले देशों (LIC और MIC) दोनों के विकास का समर्थन करने में सहायक रहे हैं।
- MDB में **विश्व बैंक समूह**, **एशियाई विकास बैंक**, अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर-अमेरिकी विकास बैंक आदि शामिल हैं।



- The African Development Bank (AfDB)
- The Asian Development Bank (ADB)
- The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
- The European Investment Bank (EIB)
- The Inter-American Development Bank (IADB)
- The Islamic Development Bank (IsDB)
- The World Bank Group (WBG)

//

वर्षिषज्जों द्वारा MDB में सुधार के समर्थन का कारण:

- **जलवायु संकट:** G20 वर्षिषज्ज पैनल का तर्क है कि जलवायु संकट के कारण वैश्विक चुनौतियों, वर्षिषकर उभरते बाज़ारों और वकिसशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDE) में MDB में सुधार कयि जाने की आवश्यकता है।
- **दीर्घकालिक परविरतन:** MDB को दीर्घकालिक परविरतनकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रति करते हुए राष्ट्रीय सरकारों द्वारा पहचाने गए **सतत वकिस लक्ष्यों (SDG)** के साथ अपने संचालन को संरेखति करना चाहयि।
- **नजी क्षेत्र की भागीदारी:** नजी और संप्रभु वतितपोषण के अपने पछिले वभाजन के वपिरीत MDB संचालन के लयि व्यापक नजी क्षेत्र की भागीदारी पर अधिक ज़ोर दयिा जाना चाहयि।
- **समन्वय:** MDB की सफलता वभिनिन हतिधारकों के बीच बेहतर समन्वय पर नरिभर करती है। सुधारों का लक्ष्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, सार्वजनिक एवं नजी हतिधारकों के बीच समन्वय सुनश्चिति करने में आने वाली बाधाओं को कम करना होना चाहयि।
- **राष्ट्रीय भागीदारी:** लक्ष्यों, नीतियों, नविश और वतितपोषण की एकीकृत दृष्टि को आकार देने में राष्ट्रीय सरकारों की अधिक प्रमुख भूमिका होनी चाहयि।

भारत में पारंपरिक रूप से MDB का ऋण:

- **भारत के प्रति विश्व बैंक की प्रतिबद्धता:**
 - विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। विश्व बैंक ने भारत को पूर्ण तथा मौजूदा दोनों परयोजनाओं के लयि अब तक लगभग 97.6 बलियिन अमेरिकी डॉलर का ऋण दयिा है।
 - कुल आवंटति ऋण में से 19% सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्र में परयोजनाओं के लयि 15% कृषि, मत्स्यपालन व वानकी के लयि तथा 11% परविहन क्षेत्र के लयि वयय कयिा गया है।
- **एशियाई वकिस बैंक (ADB) की भागीदारी:**
 - एशियाई वकिस बैंक फलिपींस की राजधानी मनीला में स्थति है, जसिकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। ADB ने भारत को कुल 59.7 बलियिन अमेरिकी डॉलर की परयोजना संबंधी एवं तकनीकी सहायता प्रदान की है।
 - बैंक द्वारा प्रदत्त कुल सहायता में से 34% धनराशि परविहन क्षेत्र के लयि, 25% ऊर्जा क्षेत्र के लयि, तथा 10% शहरी आधारभूत अवसंरचना के लयि आवंटति की गई है।
- **एशयिन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) का योगदान:**
 - AIIB की स्थापना वर्ष 2016 में हुई जसिका मुख्यालय बीजगि (चीन) में स्थति है। इसके द्वारा भारत को 9.9 बलियिन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है।
 - इस राशि में से 42% परविहन क्षेत्र के लयि, 14% ऊर्जा क्षेत्र हेतु तथा 12.6% आर्थिक वकिस के लयि आवंटति कयिा गया है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न एशियाई आधारकि-संरचना नविश बैंक [एशयिन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (AIIB)] के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:
(2019)

1. AIIB के 80 से अधकि सदस्य राष्ट्र हैं ।
2. AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है ।
3. AIIB में एशया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है ।

उपर्युत कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

?????????:

प्रश्न. भारत ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और एशयिन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक (AIIB) का संस्थापक सदस्य बनने के लयि हस्ताक्षर कयि हैं । इन दोनों बैंकों की भूमकि कसि प्रकार भनि होगी? भारत के लयि इन दोनों बैंकों के रणनीतिक महत्त्व पर चर्चा कीजयि । (2012)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/proposed-reforms-for-multilateral-development-banks>

